



मोहाली में प्ले ऑफ चरण में क्वालीफाई करने के लिए नौ जीत दर्ज करने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज किंग्स इलेवन पंजाब क्लब यहां घरेलू मैदान पर होने वाले आईपीएल सात के पहले मुकबले में अनर्रितर प्रदर्शन कर रही मुंबई इंडियंस के खिलाफ वजियी लय जारी रखना चाहेगी

पंजाब ने प्रत्येक टीम के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया है और टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है अब उसकी नगिहें क्लब यहां घरेलू मैदान पर होने वाले मुकबले में एक और जीत दर्ज कर शीर्ष स्थान मजबूत करने पर लगी होगी

क्लब पंजाब ने दल्लि डेयरडेविल्स को शक्ति दी थी और अपने शीर्ष स्तरीय खेल का नजारा पेश किया, जिसने उसे इस सत्र के शीर्ष टीम बना दिया है इससे पहले आईपीएल में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2008 के शुरुआती चरण में रहा था जिसमें वह सेमीफाइनल चरण तक पहुंची थी

{loadposition user13}

‘ओरेंज कैप्रधारी’ ग्लेन मैक्सवेल टीम के स्टार खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने अभी तक 531 रन जुटा लिये हैं युवा खिलाड़ी जैसे संदीप शर्मा और मनन वोहरा ने बल्लेबाजी विभाग जबकि अक्षर पटेल ने गेंदबाजी विभाग में दबाव भरे हालात में काफी परपिक्ता दिखाई है

टीम का बल्लेबाजी विभाग शीर्ष क्रम में वीरेंद्र सहवाग के मौजूदगी से मजबूत हुआ है, जिनकी कंपनी में युवा बल्लेबाज जैसे वोहरा के अपनी प्रतिभा दिखाने का काफी मौका मिला

ज्यादा से ज्यादा रन जुटाना टीम का ‘गुरमंत्र’ रहा है, जैसा कि कप्तान जार्ज बेली ने कहा कि प्रत्येक टीम महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे खिलाड़ियों के आत्मविश्वास से काफी बढ़ोतरी हुई

बेली ने कहा, “मुझे लगता है कि जीतने से आपको आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास बढ़ता है खेल के इस प्रारूप में ये दोनों सचमुच काफी अहम चीजे हैं ”

टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन का लुत्फ उठाते हुए पंजाब के मजबूत बल्लेबाजी लाइन अप ने अभी तक दो बार **200** से ज्यादा के स्कोर का सफलतापूर्वक पीछा किया है और चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ मजबूत बल्लेबाजी टीम दिखा रही है।

गेंदबाजी विभाग में पीसी स्टेडियम की उछाल भरी पंच पंजाब के मध्यम गति के गेंदबाज संदीप शर्मा की पसंदीदा होगी जो गेंद को स्वगि करने की कबलियत रखते हैं जबकि टीम युवा और दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज बेरॉन हेंडरिक्स से कल अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लगा होगी।

वहीं मुंबई के लिये कल पंजाब को हराना मुश्किल चुनौती साबित होगी। उन्होंने अभी तक खेले **11** में से केवल चार मैचों में जीत दर्ज की।

मुंबई की टीम लेंडलि समिन्स और माइक हस्सी से बल्लेबाजी में वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद कर रही होगी जैसा उन्होंने कल राजस्थान रायल्स के खिलाफ दिखाया, जिसमें उन्होंने क्रमशः **62** और **56** रन की अर्धशतकीय पारियां खेलीं।

पीसी पंच में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिये हमेशा कुछ न कुछ मौजूद होता है और यह करीन पोलार्ड जैसे बल्लेबाज की पसंदीदा होनी चाहिए।

मुंबई की टीम अपने सीनियर गेंदबाज और आफस्पिनर हरभजन सिंह से अपने अनुभव का इस्तेमाल करने की उम्मीद लगाये होगी। उनकी टीम में श्रीलंकाई स्टार तेज गेंदबाज लसथि मलिंगा भी शामिल है जिनके नाम टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट हैं।

(भाषा)